

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: अग्रिम १०.०७/प्र.क्र.५८/०७/विनियम
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २००७.

- वाचावे : १)शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एफएनडी-१०६२-बी, दिनांक ६/१२/१९६२.
२)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : मुविनि-१०९२/प्र.क्र २१८/९२/विनियम, दिनांक १/१/१९९३.
३)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : मुविनि-१०९९/प्र.क्र ५२/९९/विनियम, दिनांक २०/१०/१९९९.
४)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : मुविनि-१०९८/प्र.क्र ४७/९८/विनियम, दिनांक ३१/७/२०००.
५)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-१०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दिनांक ११/७/२००१
६)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अग्रिम-१०.०५/प्र.क्र.१८/२००५/विनियम, दिनांक:२०/७/२००५

शासन निर्णय

अराजपत्रित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम क्रमांक १४२ (जे) अनुसार देण्यात येणाऱ्या सण अग्रिमाची मर्यादा वाढविण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शासन आता असे आदेश देत आहे की, ज्या अराजपत्रित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दरमहा मूळ वेतन (रु. ८,३०० /-) अधिक महागाई वेतन असे दोन्ही मिळून रु.१२,४५०/- (रु. बारा हजार चारशे पन्नास) पेक्षा जास्त नसेल, अशा अराजपत्रित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुंबई वित्तीय नियम,१९५९ मधील नियम क्रमांक १४२ (जे) अनुसार, सण अग्रिम रु.२५००/- (रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) एवढा अनुज्ञेय राहिल.

२. सण अग्रिम फक्त पुढील सणांना तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी घोषित करण्यात येणाऱ्या सणांसाठीच अनुज्ञेय राहिल.

- | | |
|-----------------|--|
| १. दिवाळी | ६. रोश-होशना |
| २. रमझान ईद | ७. वैशाखी पौर्णिमा (भगवान बुध्द जयंती) |
| ३. ख्रिसमस | ८. स्वातंत्र दिन |
| ४. पारसी नववर्ष | ९. प्रजासत्ताक दिन |
| ५. संवत्सरी | |

३. सण अग्रिम मंजूरी आणि वसुलीच्या इतर सर्व अटी व शर्ती पूर्वी विहित केल्याप्रमाणेच राहतील.

४. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम क्रमांक १४२ (जे) मध्ये योग्य ती दुरुस्ती यथावकाश करण्यात येईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(ना. हे. सोनारे)

अवर सचिव, वित्त विभाग.

प्रति

- * १. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०

- * २. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०
- * ३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर
- * ४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर
५. राज्यपालांचे सचिव
६. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव
७. उप मुख्य मंत्र्यांचे प्रधान सचिव
८. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक
९. सर्व आमदार
१०. मंत्रालयातील सर्व प्रशासनिक विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे(पूर्व), मुंबई ४०० ०५१
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
१५. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकणभवन, नवी मुंबई
- * १६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई
- * १७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), मुंबई
१८. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, कुटीर क्र.३ व ४, अधिदान व लेखा कार्यालय आवार, मुंबई
- * १९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
- * २०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
- * २१. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मादाम कामा रोड, मुंबई
- * २२. प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नागपूर/मुंबई, वांद्रे, मुंबई ४०० ०५१
२३. उप संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई/पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद /नाशिक / अमरावती
२४. उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई /पुणे/ नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक / अमरावती
२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
२६. सर्व उप कोषागार अधिकारी
२७. मंत्रालयाच्या सर्व प्रशासनिक विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख.
२८. सर्व विभागीय आयुक्त
२९. सर्व जिल्हाधिकारी
३०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
३१. सर्व जिल्हा परिषदांचे अर्थ विभागातील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
३२. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली ११० ००१
३३. संचालक (माहिती), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८, स्टेट एम्पोरिया इमारत, बाबा खरकसिंग मार्ग, नवी दिल्ली ११०००१.
३४. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने
३५. निवड नस्ती, विनियम, वित्त विभाग
- * पत्राद्वारे.